



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 26

2 दिसम्बर 2011

संख्या 48

1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां

(करोड़ ₹)

मद	2010	2011		घट-बढ़	
	26 नवम्बर	18 नवम्बर	25 नवम्बर #	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
जारी नोट	8,89,304	10,08,147	10,02,283	-5,864	1,12,979
संचलन में नोट	8,89,288	10,08,132	10,02,267	-5,865	1,12,979
बैंकिंग विभाग में रखे नोट	16	15	16	2	1
जमाराशियां					
केंद्र सरकार	43,525	100	100	—	-43,425
बाजार स्थिरीकरण योजना	—	—	—	—	—
राज्य सरकार	41	42	42	—	1
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	3,10,878	3,58,393	3,71,379	12,986	60,502
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	3,858	3,847	3,827	-21	-31
अन्य बैंक	15,239	16,419	17,038	619	1,799
अन्य	13,799	10,547	10,741	194	-3,058
अन्य देयताएं	3,52,601	5,73,297	5,74,773	1,475	2,22,172
कुल देयताएं / आस्तियां	16,29,245	19,70,794	19,80,184	9,390	3,50,939
विदेशी मुद्रा आस्तियां ⁽¹⁾	12,14,422	14,11,897	14,12,538	641	1,98,116
सोने के सिक्के और सोना-चांदी ⁽²⁾	96,510	1,31,442	1,31,442	—	34,932
रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	3,06,709	3,99,801	4,01,866	2,065	95,157
ऋण और अग्रिम					
केंद्र सरकार	—	15,849	21,325	5,476	21,325
राज्य सरकारें	1,242	1,322	91	-1,231	-1,152
नाबाई	—	—	—	—	—
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	4,582	3,219	5,832	2,613	1,251
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	30	—	—	—	-30
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—
भारतीय निर्यात-आयात बैंक	—	—	—	—	—
अन्य	367	646	736	90	370
खरीदे और भुनाए गए बिल					
वाणिज्यिक	—	—	—	—	—
खजाना	—	—	—	—	—
निवेश ⁽³⁾	1,320	1,320	1,320	—	—
अन्य आस्तियां	4,063	5,298	5,034	-263	971

- (1) विदेशी प्रतिभूतियां, विदेशों में रखी गई राशियां और विदेशी शेयरों/बांडों में किए गए निवेश शामिल हैं। इसमें 20 मार्च 2009 से आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश भी शामिल है।
 (2) 17 अक्टूबर 1990 से स्वर्ण का मूल्य निर्धारण अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्यों के आसपास किया जाता है।
 (3) इसमें विदेशी शेयरों और बांडों तथा भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल नहीं हैं।

2. विदेशी मुद्रा भंडार

मद	25 नवम्बर 2011 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़							
			सप्ताह		मार्च 2011 की समाप्ति पर		दिसंबर 2010 की समाप्ति पर		वर्ष	
	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कुल भंडार	15,79,000	304,365	886	-4,259	2,17,986	-453	2,46,646	7,031	2,36,939	10,386
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां +	14,10,555	270,377	610	-4,199*	1,85,672	-3,953	2,10,478	2,563	1,97,276	5,122
(ख) स्वर्ण \$	1,31,442	26,896	—	—	28,870	3,924	30,756	4,426	34,932	5,228
(ग) विशेष आहरण अधिकार @	23,421	4,489	175	-38	3,020	-80	668	-589	178	-593
(घ) आइएमएफ में प्रारक्षित अंश की स्थिति**	13,582	2,603	101	-22	424	-344	4,744	631	4,553	629

- + आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किए गये ₹1,982 करोड़ / 380 मिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश को छोड़कर।
 * अमरीकी डॉलर के रूप में दर्शाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में भंडार में रखी गई अमरीकी मुद्राओं से इतर मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन) में होनेवाली मूल्यवृद्धि / मूल्यहास का प्रभाव शामिल है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन का वर्तमान सांख्यिकी खंड देखें।
 ** अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) में प्रारक्षित निधि की स्थिति अर्थात् प्रारक्षित अंश की स्थिति (आरटीपी) जिसे 23 मई 2003 से 26 मार्च 2004 तक जापान मद के रूप में दिखाया गया है अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहार के अनुसार 2 अप्रैल 2004 को समाप्त सप्ताह से भंडार में शामिल की गई है।
 @ इसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सामान्य आवंटन के अन्तर्गत आवंटित 3,082.5 मिलियन एसडीआर (4,883 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य) और विशिष्ट आवंटन के अन्तर्गत आवंटित 214.6 मिलियन एसडीआर (340 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य) शामिल हैं, जिनका आवंटन क्रमशः 28 अगस्त 2009 और 9 सितंबर 2009 को किया गया।
 \$ इसमें ₹31,463 करोड़ (6,699 मिलियन अमरीकी डॉलर) शामिल है जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से 3 नवम्बर 2009 को खरीदे गए 200 मेट्रिक टन सोने को परिलक्षित करता है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंक - भारत में कारोबार

(करोड़ ₹)

मद	18 नव. 2011 को बकाया #	निम्नलिखित की तुलना में घटबढ़				
		परखवाड़े में	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2010-2011	2011-2012	2010	2011
	1	2	3	4	5	6
बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	69,809	-218	-828	-3,933	13,035	5,705
बैंकों से उधार ⁽¹⁾	26,775	3,400	-10,652	-2,949	4,915	5,069
अन्य मांग और मीयादी देयताएं ⁽²⁾	9,893	20	1,202	2,769	1,600	2,713
अन्य के प्रति देयताएं						
कुल जमाराशियां	56,47,264	-6,842	3,59,896	4,39,294	6,64,251	7,94,542
		(-0.1)	(8.0)	(8.4)	(15.9)	(16.4)
मांग	5,59,375	-5,359	-7,645	-82,330	1,17,986	-78,589
मीयादी	50,87,888	-1,483	3,67,541	5,21,624	5,46,264	8,73,131
उधार ⁽³⁾	1,67,537	-2,324	9,050	36,196	15,091	54,208
अन्य मांग और मीयादी देयताएं	3,48,135	-6,895	3,385	6,331	18,137	15,330
रिजर्व बैंक से उधार	3,219	2,349	4,405	-1,812	4,447	-1,227
रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं जमा शेष	3,96,873	16,858	25,992	47,364	76,918	63,913
पास में नकदी	38,479	-8	6,751	8,134	8,767	6,151
रिजर्व बैंक के पास जमा शेष	3,58,393	16,867	19,241	39,230	68,150	57,762
बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
अन्य बैंकों में जमाशेष ⁽⁴⁾	55,111	-3,460	-16,465	-1,026	2,195	9,156
मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	17,792	2,612	-5,056	1,186	4,860	5,180
बैंकों को अग्रिम	7,616	899	-5,879	-4,953	1,764	3,603
अन्य आस्तियां	70,376	-162	9,829	1,303	29,551	16,083
निवेश⁽⁵⁾	17,13,986	-17,652	91,659	2,12,367	1,13,977	2,37,575
		(-1.0)	(6.6)	(14.1)	(8.4)	(16.1)
सरकारी प्रतिभूतियों में	17,09,909	-17,563	93,135	2,12,761	1,16,400	2,38,379
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	4,078	-89	-1,476	-394	-2,423	-804
बैंक ऋण	41,89,044	8,570	3,15,108	2,46,962	6,60,043	6,29,148
		(0.2)	(9.7)	(6.3)	(22.8)	(17.7)
खाद्य ऋण	78,713	1,250	9,518	14,430	16,155	20,706
खाद्येतर ऋण	41,10,331	7,320	3,05,590	2,32,531	6,43,887	6,08,442
ऋण, कैश-क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट	40,37,551	6,295	3,11,959	2,43,545	6,33,151	6,03,434
देशी बिल - खरीदे गए	13,970	332	-1,287	526	787	3,244
भुनाए गए ⁽⁶⁾	81,566	1,304	4,935	1,700	19,936	14,413
विदेशी बिल - खरीदे गए	18,124	-401	186	-459	-311	1,806
भुनाए गए	37,833	1,040	-685	1,649	6,480	6,251
नकद-जमा अनुपात	7.03					
निवेश-जमा अनुपात	30.35					
ऋण-जमा अनुपात	74.18					

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने प्रायोजक बैंकों से लिए गए उधारों को छोड़कर। (2) जहां बैंकिंग प्रणाली के प्रति किसी देयता को पहचानना संभव नहीं हुआ है वहां इसे 'अन्य के प्रति देयताएं' की तदनुसूची मदों में शामिल कर लिया गया है। (3) भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और एफ़िज़म बैंक से इतर। (4) चालू खाते तथा अन्य खाते में। (5) इस सारणी में दिए गए निवेश सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रयोजन के लिए हैं और इसमें सारणी 5 में अलग से दिए गए अन्य निवेश शामिल नहीं हैं। (6) इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास पुनःभुनाए गए बिल शामिल नहीं हैं।

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संबंधित अवधि में घटबढ़ प्रतिशत दर्शाते हैं।

टिप्पणी : 3 मई 2002 से हुए विलयनों के प्रभाव शामिल हैं।

4. आरक्षित नकदी निधि अनुपात और ब्याज दरें

(प्रतिशत प्रति वर्ष)

मद / सप्ताहांत	2010	2011					
	19 नवम्बर	14 अक्टूबर	21 अक्टूबर	28 अक्टूबर	4 नवम्बर	11 नवम्बर	18 नवम्बर
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत) ⁽¹⁾	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
बैंक दर	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
आधार दर ⁽²⁾	7.50/8.50	10.00/10.75	10.00/10.75	10.00/10.75	10.00/10.75	10.00/10.75	10.00/10.75
जमा दर ⁽³⁾	7.00/8.00	8.50/9.25	8.50/9.25	8.50/9.25	8.50/9.25	8.50/9.25	8.50/9.25
मांग मुद्रा दर (भारकित औसत) ⁽⁴⁾	6.77	8.27	8.26	8.40	8.47	8.60	8.57

(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से संबंधित आरक्षित नकदी निधि अनुपात। (2) 1 जुलाई 2010 से पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित आधार दर। पहले के आंकड़ों का संबंध बैंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) से है। (3) जमा दर प्रमुख बैंकों की एक वर्ष से अधिक परिपक्वतावाली मीयादी जमाराशियों से संबंधित है। (4) इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन का 90-95 प्रतिशत भाग शामिल है। मांग मुद्रा दर (भारकित औसत) सप्ताह (शनिवार से शुक्रवार) के लिए दैनिक मांग मुद्रा दर का मात्रा-भारकित औसत है।

5. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण तथा शेयरों/डिबेंचरों/बांडों/वाणिज्य पत्र आदि में निवेश के रूप में दी गई वित्तीय सहायता

(करोड़ ₹)

मद	2011-2012			2010-2011		
	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (2)-(1)	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (5)-(4)
	2011			2010		
	25 मार्च	18 नवम्बर		26 मार्च	19 नवम्बर	
	1	2	3	4	5	6
1. बैंक ऋण	39,42,083	41,89,044	2,46,962 (6.3)	32,44,788	35,59,896	3,15,108 (9.7)
क. खाद्य ऋण	64,283	78,713	14,430	48,489	58,008	9,518
ख. खाद्येतर ऋण	38,77,800	41,10,331	2,32,531 (6.0)	31,96,299	35,01,889	3,05,590 (9.6)
2. निवेश	1,47,601	1,70,648	23,047	1,18,071	1,52,741	34,670
क. वाणिज्यिक पत्र	12,309	21,833	9,524	25,188	40,741	15,553
ख. निम्न (क+ख) द्वारा जारी शेयर	41,316	38,298	-3,018	30,106	34,902	4,796
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	8,965	8,059	-905	4,625	7,721	3,097
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	32,351	30,238	-2,113	25,481	27,181	1,699
ग. निम्न (क+ख) द्वारा जारी बांड/ डिबेंचर	93,975	1,10,517	16,542	62,777	77,098	14,321
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	27,946	35,812	7,866	22,710	23,820	1,111
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	66,029	74,705	8,676	40,067	53,278	13,211
3. कुल (1ख+2)	40,25,401	42,80,979	2,55,578 (6.3)	33,14,370	36,54,629	3,40,260 (10.3)
ज्ञापन मदें :						
में निवेश						
क. पारस्परिक निधियों द्वारा जारी लिखतें	47,603	65,375	17,772	52,887	45,803	-7,084
ख. सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी लिखतें	31,296	32,518	1,222	32,597	28,515	-4,083
ग. अन्यो द्वारा जारी बांड / डिबेंचर	45,615	40,474	-5,141	30,902	29,481	-1,420

टिप्पणी: 1. निवेश संबंधी आंकड़े सांविधिक धारा 42 (2) के अंतर्गत प्राप्त विवरणियों पर आधारित हैं।

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।

6. विदेशी मुद्रा दरें – हाज़िर और वायदा प्रीमिया

विदेशी मुद्रा	2011					वार्षिक वृद्धि (+) / हास (-) (प्रतिशत)				
	21 नव.	22 नव.	23 नव.	24 नव.	25 नव.	21 नव.	22 नव.	23 नव.	24 नव.	25 नव.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)										
अमरीकी डॉलर	51.7165	52.7015	52.1005	52.2500	52.1665	—	-14.06	-12.46	-12.61	-12.51
यूरो	69.8883	71.0788	70.0732	69.8261	69.4263	—	-12.39	-11.81	-12.47	-12.41
फेडरॉ की सांकेतिक दरें (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)										
अमरीकी { खरीद	51.7100	52.6700	52.1450	52.2500	52.1650	—	-14.01	-12.53	-12.62	-12.50
डॉलर { बिक्री	51.7200	52.6800	52.1550	52.2600	52.6625	—	-14.01	-12.53	-12.62	-13.31
पौंड { खरीद	81.3975	82.3800	81.4200	81.2225	80.6325	—	-11.93	-10.90	-11.15	-10.81
स्टर्लिंग { बिक्री	81.4275	82.4125	81.4550	81.2550	80.6625	—	-11.92	-10.90	-11.16	-10.81
यूरो { खरीद	69.8700	71.0250	70.1550	69.8175	69.4100	—	-12.32	-11.90	-12.45	-12.39
{ बिक्री	69.9000	71.0450	70.1850	69.8350	69.4450	—	-12.32	-11.90	-12.45	-12.38
100 येन { खरीद	67.2950	68.3150	67.6850	67.7250	67.3625	—	-20.55	-19.49	-18.96	-18.84
{ बिक्री	67.3250	68.3525	67.7150	67.7550	67.3925	—	-20.56	-19.50	-18.95	-18.82
अमरीकी डॉलर का अंतर-बैंक वायदा प्रीमिया (प्रतिशत वार्षिक)										
1 - माह	5.57	6.94	7.02	6.66	6.33					
3 - माह	4.06	4.59	4.49	4.86	4.56					
6 - माह	3.23	3.66	3.55	3.92	3.62					

— पिछले वर्ष के तदुनुरूपी दिन बाज़ार बंद।

टिप्पणी: 1. एकीकृत विनिमय दर प्रणाली 1 मार्च 1993 से लागू हुई।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2002 से यूरो संदर्भ दर घोषित की गई।

7. मुद्रा स्टॉक : घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2011		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष - दर - वर्ष			
					2010-2011		2011-2012		2010		2011	
	31 मार्च #	18 नव. #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम ₃	64,99,548	70,13,674	3,113	—	4,87,867	8.7	5,14,125	7.9	8,60,005	16.4	9,23,075	15.2
घटक (i+ii+iii+iv)												
(i) जनता के पास मुद्रा	9,14,197	9,77,384	9,333	1.0	1,04,274	13.6	63,187	6.9	1,48,151	20.5	1,05,617	12.1
(ii) बैंकों के पास मांग जमा	7,17,660	6,38,474	-5,583	-0.9	-7,226	-1.0	-79,185	-11.0	1,29,773	22.3	-72,269	-10.2
(iii) बैंकों के पास मीयादी जमा	48,63,979	53,96,693	-452	—	3,91,099	9.5	5,32,714	11.0	5,83,303	14.9	8,92,164	19.8
(iv) रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा	3,713	1,123	-186	-14.2	-279	-7.3	-2,590	-69.8	-1,222	-25.6	-2,437	-68.5
स्रोत (i+ii+iii+iv+v)												
(i) सरकार को निवल बैंक ऋण (क+ख)	19,82,771	22,12,915	20,071	0.9	1,51,676	9.1	2,30,144	11.6	3,19,755	21.3	3,92,053	21.5
(क) रिजर्व बैंक	3,96,555	4,16,903	36,725		47,928		20,348		1,87,185		1,57,390	
(ख) अन्य बैंक	15,86,216	17,96,012	-16,654	-0.9	1,03,748	7.1	2,09,796	13.2	1,32,570	9.3	2,34,663	15.0
(ii) वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण (क+ख)	42,35,406	44,86,142	9,444	0.2	3,46,568	9.9	2,50,735	5.9	7,00,317	22.3	6,48,164	16.9
(क) रिजर्व बैंक	2,164	1,908	586	—	244	—	-256	—	-3,824	—	336	—
(ख) अन्य बैंक	42,33,242	44,84,233	8,859	0.2	3,46,324	9.9	2,50,991	5.9	7,04,141	22.5	6,47,828	16.9
(iii) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां *	13,93,327	15,84,738	32,960	2.1	97,851	7.6	1,91,411	13.7	27,479	2.0	2,05,419	14.9
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	12,724	13,312	—	—	984	8.7	587	4.6	1,522	14.2	1,058	8.6
(v) बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुदेतर देयताएं जिनमें से :	11,24,680	12,83,433	59,363	4.8	1,09,212	12.8	1,58,752	14.1	1,89,069	24.5	3,23,619	33.7
रिजर्व बैंक की निवल मुदेतर देयताएं	3,68,274	5,77,475	46,691	8.8	60,247	20.0	2,09,201	56.8	-26,655	-6.9	2,15,613	59.6

* 20 मार्च 2009 से आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश शामिल है।

टिप्पणी : 31 मार्च 2011 को सरकारी शेष राशियां लेखा-बंदी के बाद की हैं।

8. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2011		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2010-2011		2011-2012		2010		2011	
	31 मार्च #	25 नव. #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	13,76,881	14,09,139	7,913	0.6	80,928	7.0	32,258	2.3	2,36,992	23.7	1,72,525	14.0
घटक (i+ii+iii)												
(i) संचलन में करेंसी	9,49,659	10,15,578	-5,865	-0.6	1,01,993	12.8	65,919	6.9	1,49,486	19.9	1,14,037	12.6
(ii) रिजर्व बैंक के पास बैंकर की जमा	4,23,509	3,92,244	13,585	3.6	-22,324	-6.3	-31,265	-7.4	87,195	35.9	62,270	18.9
(iii) रिजर्व बैंक के पास “अन्य” जमा	3,713	1,316	194	17.3	1,260	32.8	-2,396	-64.5	311	6.5	-3,782	-74.2
स्रोत (i+ii+iii+iv-v)												
(i) रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण : उसमें से - केंद्र को	3,96,555	4,23,184	6,281		52,906		26,629		1,96,852		1,58,693	
	3,94,035	4,23,136	7,512		51,709		29,101		1,95,568		1,59,845	
(ii) बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण - उसमें से: बैंकों को	7,324	7,868	2,703		3,781		545		863		1,590	
(नाबार्ड सहित)	5,159	5,870	2,613		3,484		711		4,653		1,218	
(iii) रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां *	13,28,553	15,43,962	641	—	78,966	6.4	2,15,409	16.2	-944	-0.1	2,33,048	17.8
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	12,724	13,312	—	—	984	8.7	587	4.6	1,426	13.2	1,058	8.6
(v) रिजर्व बैंक की निवल मुदेतर देयता	3,68,274	5,79,187	1,712	0.3	55,708	18.5	2,10,913	57.3	-38,796	-9.8	2,21,864	62.1

* 20 मार्च 2009 से आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश शामिल है।

टिप्पणी : 31 मार्च 2011 को सरकारी शेष राशियां लेखा-बंदी के बाद की हैं।

9. चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो/रिवर्स रिपो की नीलामी

(करोड़ ₹)

तारीख	रिपो अवधि (दिन)	रिपो (बढ़ाना)					रिवर्स रिपो (घटाना)					चलनिधि में की गई निवल वृद्धि (+)/कमी (-) (5-10)	एमएसएफ	बकाया राशि
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)			
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21 नवम्बर 2011	1	49	1,27,335	49	1,27,335	8.50	1	10	1	10	7.50	1,27,325	—	-1,27,325
22 नवम्बर 2011	1	50	1,31,540	50	1,31,540	8.50	—	—	—	—	—	1,31,540	—	-1,31,540
23 नवम्बर 2011	1	54	1,35,440	54	1,35,440	8.50	1	10	1	10	7.50	1,35,430	—	-1,35,430
24 नवम्बर 2011	1	43	1,13,165	43	1,13,165	8.50	2	260	2	260	7.50	1,12,905	—	-1,12,905
25 नवम्बर 2011	3	44	98,775	44	98,775	8.50	1	15	1	15	7.50	98,760	—	-98,760

एमएसएफ : सीमांत स्थायी सुविधा ।

‘—’ : नीलामी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

10. भारत सरकार खजाना बिलों की नीलामी

(करोड़ ₹)

नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियां			भा.रि. बैंक पर न्यागमन	कुल निर्गम (7+8+9)	भारित औसत मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित आय (प्रतिशत)	निर्गम की तारीख को बकाया राशि (अंकित मूल्य)
			सं.	कुल अंकित मूल्य		सं.	कुल अंकित मूल्य						
				प्रतियोगी	अप्रतियोगी		प्रतियोगी	अप्रतियोगी					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
91-दिवसीय खजाना बिल													
2011-2012													
6 अप्रैल	8 अप्रैल	4.000	78	14.105	—	35	4.000	—	—	4.000	98.26	7.1443	69,845
6 जुलाई	8 जुलाई	7.000	94	27.621	250	29	7.000	250	—	7.250	98.00	8.1857	1.21.860
5 अक्तू.	7 अक्तू.	4.000	69	14.755	1,500	41	4.000	1,500	—	5.500	97.94	8.4364	1,14.719
23 नव.	25 नव.	4.000	74	12.925	4,000	28	4.000	4,000	—	8.000	97.84	8.8550	94.619
182-दिवसीय खजाना बिल													
2011-2012													
13 अप्रैल	15 अप्रैल	2.000	74	7.744	1,500	25	2.000	1,500	—	3.500	96.43	7.4462	24,501
6 जुलाई	8 जुलाई	3.000	75	7.178	—	44	3.000	—	—	3.000	96.04	8.2692	34,251
12 अक्तू.	14 अक्तू.	4.000	56	7.293	—	41	4.000	—	—	4.000	95.90	8.6177	42,100
23 नव.	25 नव.	4.000	86	12.367	1	26	4.000	1	—	4.001	95.79	8.8361	43,351
364-दिवसीय खजाना बिल													
2011-2012													
6 अप्रैल	8 अप्रैल	2.000	80	8.350	—	31	2.000	—	—	2.000	93.02	7.5476	42,456
13 जुलाई	15 जुलाई	3.000	107	13.141	—	20	3.000	—	—	3.000	92.41	8.2360	53,308
5 अक्तू.	7 अक्तू.	4.000	93	10.645	—	43	4.000	—	—	4.000	92.18	8.5185	65,161
16 नव.	18 नव.	4.000	134	19.547	203	24	4.000	203	—	4.203	91.90	8.8500	71,369

टिप्पणियाँ: 1. 91 दिवसीय खजाना बिलों हेतु 6 नवम्बर 1998 को एकसमान मूल्य नीलामी का प्रारंभ हुआ। नीलामी का फॉर्मेट 11 दिसम्बर 2002 से बहु मूल्य नीलामी में परिवर्तित किया गया है।

2. 2 जून 1999 से प्रभावी 364 दिवसीय खजाना बिलों के मामले में नीलामी में अप्रतियोगी बोलियों की अनुमति दी गई है।

3. कट-ऑफ कीमत पर निहित लाभ को वास्तविक /364 दिवस के आधार पर गिनती करने की प्रथा को 27 अक्तूबर 2004 को नीलामी से वास्तविक /365 दिवस की गिनती की प्रथा में परिवर्तित कर दिया गया है।

11. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास नकद जमा शेष

(करोड़ ₹)

	दिनांक													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	19 नव.	20 नव.	21 नव.	22 नव.	23 नव.	24 नव.	25 नव.	26 नव.	27 नव.	28 नव.	29 नव.	30 नव.	1 दिस.	2 दिस.
2 दिसम्बर 2011 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधी अपेक्षाएँ	3,60,575	3,60,575	3,60,575	3,60,575	3,60,575	3,60,575	3,60,575	3,60,575	3,60,575	3,60,575	3,60,575	3,60,575	3,60,575	3,60,575
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी शेष	3,63,351	3,63,351	3,68,939	3,72,909	3,76,010	3,70,881	3,71,729							

टिप्पणी: ये आंकड़े पखवाड़े के दौरान भा.रि. बैंक के पास संचयी आधार पर रखी गई अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल नकद जमा शेष के हैं।

12. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाण-पत्र

(करोड़ ₹)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि #		पखवाड़े के दौरान जारी #		ब्याज दर (प्रतिशत) @	
	1	2	3	4	5	6
8 अक्तूबर 2010		3,44,158		38,285		6.36-8.26
14 जनवरी 2011		3,71,881		44,019		7.18-9.82
8 अप्रैल 2011		4,44,525		61,292		8.00-11.70
15 जुलाई 2011		4,05,973		28,431		8.20-10.10
7 अक्तूबर 2011		3,87,313		41,694		8.80-9.85
21 अक्तूबर 2011		3,85,936		11,635		9.00-9.90

@ प्रभावी वार्षिक ब्याज दर सीमा प्रतिवर्ष।

13. कंपनियों द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक पत्र (अंकित मूल्य पर)

(करोड़ ₹)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि	पखवाड़े के दौरान सूचित	ब्याज दर (प्रतिशत) @
	1	2	3
15 अक्टूबर 2010	1,32,093	35,490	6.50-10.00
15 जनवरी 2011	98,913	22,908	6.60-11.95
15 अप्रैल 2011	1,05,518	30,840	7.15-12.30
15 जुलाई 2011	1,28,347	29,818	8.10-13.25
15 सितम्बर 2011	1,59,701	31,045	8.47-14.00
30 सितम्बर 2011	1,44,621	37,926	7.83-14.50

@ पखवाड़े के दौरान निर्गमों पर लागू प्रतिरूपी प्रभावी वार्षिक बड़ा दर का परास।

14. थोक मूल्यों के सूचकांक (आधार : 2004-05=100)

मद	भार	2010	2011		निम्नलिखित पर प्रतिशत उतार चढ़ाव			
		13 नवम्बर	17 सितम्बर *	12 नवम्बर #	सप्ताह	महीना	मार्च के अंत में	वर्ष
		1	2	3	4	5	6	7
सभी पण्य @	100.00	..	..	..	..	..	..	..
प्राथमिक वस्तुएं	20.12	185.1	204.0	201.9	-0.5	-1.3	7.2	9.1
(i) फल और सब्जियां	3.84	176.9	195.6	196.3	-1.8	-4.8	17.6	11.0
ईंधन और विद्युत	14.91	148.5	169.4	171.5	0.0	0.8	8.6	15.5
विनिर्मित उत्पाद @	64.97	..	..	..	..	..	..	..
(i) चीनी, खांडसारी और गुड़	2.09	..	..	..	..	..	..	..
(ii) खाद्य तेल	3.04	..	..	..	..	..	..	..
(iii) सीमेंट और चूना	1.39	..	..	..	..	..	..	..
(iv) लोहा और सेमिस	1.56	..	..	..	..	..	..	..

* : अद्यतन उपलब्ध अंतिम आंकड़े।

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

@ आंकड़ों को प्रति माह जारी किया जाता है।

15. साधारण शेयर मूल्यों का बीएसई संवेदी सूचकांक तथा एनएसई निफ्टी सूचकांक - मुंबई

	2010	2011				
	25 नवम्बर	21 नवम्बर	22 नवम्बर	23 नवम्बर	24 नवम्बर	25 नवम्बर
	1	2	3	4	5	6
बीएसई संवेदी सूचकांक (1978-79=100)	19318.16	15946.10	16065.42	15699.97	15858.49	15695.43
एसएंडपी सीएनएक्स निफ्टी (3.11.1995=1000)	5799.75	4778.35	4812.35	4706.45	4756.45	4710.05

16. मांग मुद्रा बाजार में औसत दैनिक पण्यवर्त *

(करोड़ ₹)

	समाप्त सप्ताह						
	14 अक्टूबर 2011	21 अक्टूबर 2011	28 अक्टूबर 2011	4 नवम्बर 2011	11 नवम्बर 2011	18 नवम्बर 2011	25 नवम्बर 2011
	1	2	3	4	5	6	7
1. बैंक							
क) लिए गए उधार	12,907	8,972	12,550	10,022	8,613	8,551	9,495
ख) दिए गए ऋण	13,645	9,467	12,985	10,479	9,585	9,003	10,613
2. प्राथमिक व्यापारी							
क) लिए गए उधार	738	495	435	457	972	452	1,118
ख) दिए गए ऋण	—	—	—	—	—	—	—
3. कुल							
क) लिए गए उधार	13,645	9,467	12,985	10,479	9,585	9,003	10,613
ख) दिए गए ऋण	13,645	9,467	12,985	10,479	9,585	9,003	10,613

टिप्पणी: 1. ये आंकड़े सप्ताह भर की दैनिक मांग मुद्रा पण्यवर्त का औसत हैं (शनिवार से शुक्रवार)।

* इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है।

2. 6 अगस्त 2005 से बैंक और प्राथमिक व्यापारी पात्र सहभागी हैं।

17. सरकारी प्रतिभूति बाजार में पण्यवर्त (अंकित मूल्य)@

(करोड़ ₹)

मद	समाप्त सप्ताह					
	21 अक्टूबर 2011	28 अक्टूबर 2011	4 नवम्बर 2011	11 नवम्बर 2011	18 नवम्बर 2011	25 नवम्बर 2011
	1	2	3	4	5	6
I. तत्काल (आउटराइट) लेनदेन						
क) भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	1,10,688	54,170	1,10,797	53,364	1,31,544	85,526
ख) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	2,143	456	603	1,740	1,631	2,163
ग) 91 - दिवसीय खजाना बिल	5,256	4,966	7,536	4,025	3,753	2,805
घ) 182 - दिवसीय खजाना बिल	1,184	1,452	1,815	1,060	2,940	2,656
ङ) 364 - दिवसीय खजाना बिल	3,106	988	2,998	971	4,748	904
II. भारतीय रिजर्व बैंक *	422	536	99	60	133	11,073

@ रिपो लेनदेन को छोड़कर।

* भार.रि.बैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

18. विदेशी मुद्रा बाजार में पण्यवर्त (टर्नओवर)

(मिलियन अमरीकी \$)

स्थिति की तारीख	वणिज्य						अंतर बैंक					
	एफ सी वाई/आइ एन आर			एफ सी वाई/एफ सी वाई			एफ सी वाई/आइ एन आर			एफ सी वाई/एफ सी वाई		
	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	अदला बदली	वायदा	हाजिर	अदला बदली	वायदा
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
खरीद												
7 नवम्बर 2011 +												
8 नवम्बर 2011	2.771	1.550	595	336	471	330	6,643	7,425	760	2,736	1,697	93
9 नवम्बर 2011	2.765	2.060	798	219	532	556	8,554	7,659	1,211	3,523	1,536	245
10 नवम्बर 2011 +												
11 नवम्बर 2011	2.162	1,415	456	451	266	230	7,317	4,863	650	2,982	1,887	379
बिक्री												
7 नवम्बर 2011 +												
8 नवम्बर 2011	2,889	1,654	1,072	338	452	328	6,378	6,900	990	2,756	1,615	92
9 नवम्बर 2011	2,627	1,879	1,214	218	522	572	7,937	7,979	1,591	3,521	1,452	242
10 नवम्बर 2011 +												
11 नवम्बर 2011	1,756	1,925	975	454	241	266	6,466	3,854	1,022	3,038	1,900	364

एफ सी वाई = विदेशी मुद्रा । आइ एन आर = भारतीय रुपया । + बाजार बंद।

टिप्पणी: ये आंकड़े वणिज्य और अंतर बैंक लेन-देन के कारण विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री से संबंधित हैं।

19. राष्ट्रीय शेयर बाजार में हुए कंपनी ऋण कारोबार की साप्ताहिक मात्रा

(करोड़ ₹)

	समाप्त सप्ताह					
	21 अक्टूबर 2011	28 अक्टूबर 2011	4 नवम्बर 2011	11 नवम्बर 2011	18 नवम्बर 2011	25 नवम्बर 2011
	1	2	3	4	5	6
राशि	1,326.51	294.62	1,029.07	137.78	599.42	1,223.53

स्रोत: भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लि.

20. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल (अंकित मूल्य)

(करोड़ ₹)

धारक	25 नवम्बर 2011					कुल खजाना बिलों में घट-बढ़	
	अलग-अलग परिपक्वता वाले खजाना बिल					सप्ताह में	मार्च के अंत में
	14 दिवसीय (मध्यवर्ती)	91 दिवसीय (नीलामी)	182 दिवसीय (नीलामी)	364 दिवसीय (नीलामी)	कुल (1+2+3+4)		
	1	2	3	4	5	6	7
भारतीय रिजर्व बैंक	—	—	—	—	—	—	—
बैंक	—	29,206	16,525	20,397	66,128	-876	22,710
राज्य सरकारें	75,295	25,118	400	419	1,01,231	9,171	-10,257
अन्य	2,291	40,296	26,426	50,553	1,19,566	-932	36,167

21. भारत सरकार : दीर्घावधि और मध्यावधि उधार — 2011-2012

(अंकित मूल्य करोड़ ₹ में)

	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2011-2012 (25 नवम्बर 2011 तक)	2010-2011 (26 नवम्बर 2010 तक)	2010-2011	2011-2012 (25 नवम्बर 2011 तक)	2010-2011 (26 नवम्बर 2010 तक)	2010-2011
	1	2	3	4	5	6
1. कुल	3,28,000	3,61,000	4,37,000	2,54,419	2,75,813	3,25,414
2. भारिबैंक के खुला बाजार परिचालन* : बिक्री	5,798	5,519	11,575			
खरीद	15,259	13,862	78,799			

* भारिबैंक के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

22. द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार (अंकित मूल्य)*

(राशि करोड़ ₹ में)

मद	18 नवम्बर 2011 को समाप्त सप्ताह			25 नवम्बर 2011 को समाप्त सप्ताह		
	राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) सांकेतिक **		राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) सांकेतिक **	
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
	1	2	3	4	5	6
I. तत्काल (आउटराइट) लेन देन						
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां						
परिपक्वता वर्ष						
2011-12	—	—	—	—	—	—
2012-13	451	8.7273	8.8608	560	8.7784	8.8759
2013-14	10	8.6060	8.6060	—	—	—
2014-15	—	—	—	140	8.6000	8.7221
2015-16	21	8.6833	8.7015	227	8.6429	8.7500
2016-17	588	8.7391	9.0136	63	8.7539	8.8029
2017-18	327	8.7301	9.1022	41	8.7769	8.7999
2018-19	5,633	8.7994	9.0611	7,241	8.7842	8.9287
2019-20	25	9.0500	9.0500	—	—	—
2020-21	675	9.0000	9.6814	205	8.9103	9.1318
2021 से आगे	58,042	8.7694	9.3028	34,288	8.7705	9.1723
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	816	9.0630	9.2340	1,082	9.0993	9.2406
3. खजाना बिल (शेष परिपक्वता अवधि दिनों में)						
क) 14 दिन तक	819	8.5000	8.8921	334	8.7400	8.8686
ख) 15 - 91 दिन	2,365	8.6196	8.8550	1,318	8.6801	8.8696
ग) 92 - 182 दिन	1,339	8.7500	8.8600	1,079	8.7000	8.8361
घ) 183 - 364 दिन	1,199	8.7158	8.8500	450	8.4967	8.7000
II. भा.रि.बैं.* : बिक्री	66			814		
खरीद	66			10,259 +		
III. रिपो लेनदेन * (भा. रि. बैं. से इतर)	राशि	दरें (% वार्षिक)	दरें (% वार्षिक)	राशि	दरें (% वार्षिक)	दरें (% वार्षिक)
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	38,882	7.00 (1)	10.00 (92)	39,015	7.50 (1)	9.40 (15)
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	38	8.50 (1)	10.25 (15)	319	8.30 (1)	8.75 (3)
3. 91 - दिवसीय खजाना बिल	21,492	8.00 (1)	8.75 (3)	20,275	8.45 (1)	8.90 (3)
4. 182 - दिवसीय खजाना बिल	10,200	8.45 (1)	8.90 (3)	8,494	8.45 (1)	8.72 (3)
5. 364 - दिवसीय खजाना बिल	9,014	8.40 (1)	8.70 (3)	10,933	8.45 (1)	8.75 (3)
IV. भा.रि.बैं. : रिपो * ^	5,00,685	8.50	8.50	6,06,255	8.50	8.50
: रिवर्स रिपो !	1,440	7.50	7.50	295	7.50	7.50

@ भा.रि.बैं. के एसजीएल खातों में दर्ज सूचना में 'वेन इश्यूड' लेनदेन शामिल है।

* भा.रि.बैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

** न्यूनतम और अधिकतम सांकेतिक परिपक्वता-आय अनुपात (% वार्षिक) गैर मानक समूह (₹5 करोड़ से कम) के कारोबार को छोड़कर दर्शाया गया है।

* कारोबार का पहला चरण (फस्ट लेग) दर्शाता है।

^ दिनांक 5 जून 2000 से प्रभावी चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो नीलामी से संबंधित आंकड़े (देखें सारणी 9)।

! चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रिपो नीलामी शामिल है।

+ इसमें विशेष बाजार परिचालन के अंतर्गत के तेल मार्केटिंग कंपनियों की ₹ शून्य (अंकित मूल्य) के भारत सरकार के विशेष बॉण्ड (तेल बॉण्ड) का क्रय शामिल है।

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े रिपो अवधि दर्शाते हैं।

आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण हो सकता है घटक मदों का जोड़ कुल जोड़ से मेल न खाए।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक में प्रयुक्त प्रतीक .. = अनुपलब्ध - = शून्य / नगण्य # = अनंतिम

उपयुक्त जानकारी इंटरनेट पर <http://www.wss.rbi.org.in> से सीधे प्राप्त की जा सकती है।

समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <http://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध हैं।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक का एक वर्ष और तीन वर्ष के लिए शुल्क (डाक व्यय सहित) भारत में क्रमशः ₹800 और ₹2,000

तथा विदेश में क्रमशः 50 अमरीकी \$ और 125 अमरीकी \$ है।

श्रीमती महुआ रॉय द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से मुद्रित एवं प्रकाशित और ऑनलुकर प्रेस, 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित और भारतीय रिजर्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 द्वारा प्रकाशित, संपादक श्रीमती महुआ रॉय।